



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 504] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 1979/अग्रहायण 8, 1901

No. 504] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 29, 1979/AGRAHAYANA 8, 1901

इस भाग में मिला पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1979

का. मा. 766(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 4 मई, 1977 की अधिसूचना संख्या 434/दिल्ली-महानगर/77 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में गद संख्या "15-अशोक नगर" के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "श्रीमती अनीला गुप्ता, आई.ए.एस., उप-खंड मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग) न्यू कोर्ट्स, तीस हजारी, दिल्ली" के स्थान पर "श्री बी. प्रसाद, उप-सचिव, (सिवाए) दिल्ली प्राशासन, 5-अलीपुर रोड, शामनाथ मार्ग, दिल्ली", प्रविष्टि रखी जाएगी।

[संख्या 434/दिल्ली-महानगर/79]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1979

S.O. 766(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendment further amendment shall be made in its notification No. 434/DL-MET/77, dated 4 May, 1977, namely :—

In column 2 of the table appended to the said notification, against item "15-Ashok Nagar" for the existing entry "Smt. Anila Gupta, I.A.S. S.D.M. (Punjabi Bagh), New Courts, Tis Hazari, Delhi" the entry "Shri B. Prasad, Deputy Secretary (Services), Delhi Administration, 5-Alipur Road, Shamnath Marg, Delhi", shall be substituted.

[No. 434/DL-MET/79]

By Order,

K. GANESAN, Secy.